

तुरंत रिलीज के लिए

100 दिन पूरे हुए: COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए सिटी के प्रयासों के बारे में अपडेट

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (6 मई, 2020) – COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.) को फैलने से रोकने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन द्वारा अपनी पहली एमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (Emergency Operations Centre) मीटिंग आयोजित करने के बाद, आज 100^{वां} दिन है।

चूंकि स्थिति मार्च में खराब हुई थी, इसलिए सिटी ने समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखने में खास कदम उठाए थे, जिनमें शामिल हैं, फैसिलिटीज को बंद करना, प्रोग्राम रद्द करना और एमरजेंसी की स्थिति (State of Emergency) होने की घोषणा करना।

सिटी के सबसे कमजोर समुदायों पर और अर्थव्यवस्था पर, वायरस के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए, मेयर और काउंसिलर्स ने जरूरतमंद लोगों को सहायता देने के लिए चार विशेष टीमों और प्रोग्राम की घोषणा की थी, ये थे: मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट (Economic Support), सोशल स्पोर्ट (Social Support), सीनियर्स स्पोर्ट (Seniors Support) और यूथ स्पोर्ट (Youth Support) टास्क फोर्सिज और बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम (Backyard Garden Program)।

स्थानीय साझेदारों, वालंटियर्स और कारोबारियों की मदद से, इन टास्क फोर्सिज ने, पूरी सिटी में हजारों लोगों को सहयोग किया।

झलकियां

[बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम \(Backyard Garden Program\)](#)

- अब तक इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, 11,000 से अधिक निवेदन मिल चुके हैं (लगभग 5,000 निवासी प्रतीक्षा सूची में हैं)। अब प्रोग्राम में और निवेदनों के लिए जगह नहीं है।

[इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स \(Economic Support Task Force\)](#)

- इस टास्क फोर्स ने इन कामों के द्वारा 5,000 से अधिक कारोबारियों की सहायता की है: व्यक्तिगत सहयोग और सलाह, आभासी (वर्चुअल) सेमिनार और ट्रेनिंग, COVID-19 के कारण पैदा हुई नई जरूरतों को पूरा करने और कानूनों को समझने के लिए मुख्य कामों में मदद, कारोबारियों को उत्पादन बढ़ाने और उनके पास उपलब्ध जगह का इस्तेमाल करने में उनकी मदद करना।
- COVID-19 के प्रभावों और संभावी समाधान के बारे में विचारविमर्श करने के लिए, टेली-टाउन हॉल्स के द्वारा, लगभग 900 छोटे कारोबारियों को शामिल किया।
- निवासियों को लगातार मनोरंजन संबंधी विकल्प प्रदान करने के लिए और कलाकारों को सहयोग करने के लिए, कला और संस्कृति संबंधी प्रोग्रामिंग, अब ऑनलाइन पेश की जा रही है।

[सीनियर्स स्पोर्ट टास्क फोर्स \(Seniors Support Task Force\)](#)

- जानकारी और स्रोतों के लिए 280 निवेदनों का जवाब दिया और 113 घरों के लिए ग्रीसरीज खरीदकर उनके घर तक पहुंचाई।
- सिटी द्वारा पेश किए जाने वाले सहयोग और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, बुजुर्गों को सेवा देने वाले 35 सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर काम किया।
- बुजुर्गों को क्रियाशील और तंदरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, इस टास्क फोर्स ने [सीनियर्स डिजिटल कैफे \(Seniors Digital Café\)](#) की शुरुआत की हिमायत की और दो टेलिफिन टाउन हॉल्स के द्वारा सीनियर्स ग्रुप्स के साथ जुड़ी।
- ऑनलाइन ऑर्डर करने में असमर्थ बुजुर्गों के लिए, भुगतान कार्ड प्रोग्राम विकसित करने में, स्थानीय ग्रीसरी विक्रेताओं: लॉगोज (Longo's), इंडिया बाजार फ्रेश पिक्स (India Bazaar Fresh Piks) और फोर्टिनोस (Fortinos) के साथ साझेदारी की।

[सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्स \(Social Support Task Force\)](#)

- भोजन बांटने वाले चार लंगरों: रिजेनरेशन (Regeneration), नाइट्स टेबल (Knights Table), खालसा एड (Khalsa Aid) और यूनाइटेड सिक्स (United Sikhs) के साथ साझेदारी करके, एमरजेंसी भोजन वितरण प्रोग्राम विकसित किया। पिछले सात सप्ताह में, ब्राम्पटन के निवासियों को 1,500 से अधिक बार भोजन और ग्रीसरीज डिलीवर कीं – जो हर सप्ताह, औसतन 215 बार का भोजन है। यह सब, समर्पित वालंटियर्स के बिना संभव नहीं था, जिन्होंने कुल 550 घंटों की सेवा दी।
- लंगर के माध्यम से भोजन बांटने वालों की सहायता के लिए केंद्रीकृत सिस्टम स्थापित किया। कुल 31,699 पाउंड भोजन संबंधी दान प्राप्त हुआ है, साथ ही भोजन के कंटेनरों के 40 केस (100 पीस प्रति केस) और जुड़े ढक्कन वाले 6,000 कंटेनर भी दान के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिन्हें लोग अपने साथ घर ले जा सकते हैं।
- मदद लेने को तैयार, 3 बेघर निवासियों की, रिहायश, फंडिंग और निवेदन किए अन्य सहयोग तक पहुंच में मदद करने के लिए रीजन (Region) को सहयोग किया।

[यूथ स्पोर्ट टास्क फोर्स \(Youth Support Task Force\)](#)

- [यूथ सर्वेक्षण \(Youth Survey\)](#) की शुरुआत की, जिसमें 14-29 साल की उम्र वाले युवाओं से पूछा गया कि COVID-19, उन्हें किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। अब तक, 200 से अधिक युवा जवाब दे चुके हैं।
- चिंताएं सुनने और निवेदन किए मुताबिक सहयोग प्रदान करने के लिए, हर दो सप्ताह में एक बार, युवाओं को सेवा देने वाले 35 संगठनों से मुलाकात की।
- युवाओं को घर में रहते हुए क्रियाशील और प्रोग्रामों से जुड़े रखने के लिए, Instagram Live (इंस्टाग्राम लाइव) चैट से लेकर मजेदार TikTok (टिकटॉक) वीडियो बनाने तक, कई ऑनलाइन गतिविधियों का आयोजन किया। इस सप्ताह सिटी, निशुल्क, आभासी (वर्चुअल) गतिविधियों के साथ, [नेशनल यूथ वीक \(1-7 मई\) मना रही है \(celebrating National Youth Week\) \(May 1-7\)](#)।

उपलब्ध स्रोतों और इस समय के दौरान इन स्रोतों से सहायता कैसे प्राप्त की जाए, के बारे में अधिक जानकारी

www.brampton.ca/COVID19 पर उपलब्ध है।

हवाले

“शारीरिक दूरी कायम रखते हुए, हमारा समुदाय सबसे प्रभावशाली और अर्थपूर्ण तरीके से एकजुट रहा है। COVID-19 से प्रभावित सबसे कमजोर लोगों को सहायता देने के लिए, निवासी, साझेदार और स्थानीय कारोबारी आगे आए हैं। हालांकि हम सिटी को दुबारा खोलने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि अभी भी बहुत काम बाकी है। मैं निवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वे पहले की तरह ही घर पर रहें, हमारे स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञों की सलाह का पालन करें और एक-दूसरे की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध रहें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारी टीम, निवासियों और कारोबारियों की प्रतिबद्धता और परिश्रम से, हमने COVID-19 को फैलने से रोकने में काफी हद तक उपलब्धि हासिल की है। हम जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करते हुए, लगातार हमारे समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca